



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 22, 2013/माघ 2, 1934

No. 204]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 22, 2013/MAGHA 2, 1934

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2013

का.आ. 220(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन के लिए अपेक्षित है, अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् बिमल दूबे, अपर महा प्रबंधक (भूमि अर्जन) पांचवा तल, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

## अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में प्रस्तावित विशेष रेलवे परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

ज़िले का नाम : कानपुर देहात

क्रम संख्या	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	डैरापुर	(1) परजनी	293 ख	0.0370
			293ग	0.2300
			293 ग	0.0370
			296	0.0100
			297 ख	0.4170
			298	0.3160
			302	0.1110
			303	0.0780
			304	0.0590
			305	0.0960
			306 ख	0.0512
			289	0.0200
			524ड़	0.0790
			533 / 1009	0.0610
			277क	0.0290
			277ख	0.0200
			276	0.0100
			281	0.0100
			283	0.0020
			284	0.0070
			285	0.0060
			286	0.0140
			292	0.3970
			290	0.0210
			287	0.0800
			294 ख	0.0310
			288	0.0080
			280	0.0050

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			279क	0.0370
			279ख	0.0310
			291	0.0570
			520	0.0610
			522 / 1008	0.0470
			522	1.1864
			521	0.0150
			519	0.0050
		(2) बानखास	1719	0.8944
			1720	0.0310
			1716	0.1720
			1722	0.1020
			1723	0.0720
			1724	0.0580
			1725	0.0300
			1715	0.0410
			1714	0.0560
			1556क	0.0170
			1556ख	0.0160
			1713	0.4100
			1557	0.0260
			1558	0.0380
			1561ख	0.0520
			1562	0.1250
			1563	0.0510
			1563ख	0.0510
			1564	0.0610
			1565	0.3200
			1566क	0.1220
			1566 ख	0.0640
			1567क	0.0100
			1567ख	0.0100
			1610ख	0.0620
			1610ख	0.1300

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1610	0.0920
			1610मि	0.1300
			1610मि	0.1300
			1610	0.1300
			1611मि	0.0650
			1611मि	0.0200
			1611मि	0.0650
			1611क	0.0300
			1611मि	0.1200
			1611मि	0.0650
			1612	0.0090
			1613	0.5154
			1613क	0.1020
			1671	0.0102
			1697	0.0180
			1699	0.2880
			1699	0.0960
			1700	0.7330
			1701 / 1	0.1130
			2089	0.3150
			2090ख	0.0975
			2090मि	0.1650
			2090क	0.0975
			2090ग	0.1900
			2090घ	0.0800
			2088	0.0600
			1568	0.0100
			1672मि	0.0820
			1672मि	0.0852
			1672क	0.4810
			1674ख	0.0500
			1674मि	0.1450
			1674	0.1450
			1674क	0.1840

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1680क	0.1980
			1680ख	0.1540
			1680	0.1980
			1680घ	0.0676
			1698क	0.0800
			1698मि	0.1060
			1698	0.1612
			1698मि	0.1060
			1698मि	0.2100
2.	अकबरपुर	अलियापुर	226ख	0.0100
			249	0.0150
			249	0.0460
			226	0.0310

[फा. सं. 2010/एलएमएल/12/3-ईस्टर्न कॉरीडोर]

ओ. पी. सिंह, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं-1)

**MINISTRY OF RAILWAYS**

(RAILWAY BOARD)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd January, 2013

**S.O. 220(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule annexed hereto, is required for the execution of the Special Railway Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Bimal Dubey, Additional General Manager, (Land Acquisition) 5th Floor, Pragati Maiden Metro Station Complex, New Delhi in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

312 GI/13-2

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the State of Uttar Pradesh.

Name of the district : Kanpur (Dehat)

Serial Number	Name of the Taluk	Name of the Village	Survey Number	Area (in Hectares/ Square metres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Derapur	(1) Parjani	293 kha	0.0370
			293ga	0.2300
			293 ga	0.0370
			296	0.0100
			297 kha	0.4170
			298	0.3160
			302	0.1110
			303	0.0780
			304	0.0590
			305	0.0960
			306 kha	0.0512
			289	0.0200
			524dha	0.0790
			533 / 1009	0.0610
			277 ka	0.0290
			277 kha	0.0200
			276	0.0100
			281	0.0100
			283	0.0020
			284	0.0070
			285	0.0060
			286	0.0140
			292	0.3970
			290	0.0210
			287	0.0800

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			294 kha	0.0310
			288	0.0080
			280	0.0050
			279 ka	0.0370
			279kha	0.0310
			291	0.0570
			520	0.0610
			522 / 1008	0.0470
			522	1.1864
			521	0.0150
			519	0.0050
		(2) Baankhas	1719	0.8944
			1720	0.0310
			1716	0.1720
			1722	0.1020
			1723	0.0720
			1724	0.0580
			1725	0.0300
			1715	0.0410
			1714	0.0560
			1556 ka	0.0170
			1556 kha	0.0160
			1713	0.4100
			1557	0.0260
			1558	0.0380
			1561 kha	0.0520
			1562	0.1250
			1563	0.0510
			1563 kha	0.0510
			1564	0.0610
			1565	0.3200

312 GI/13-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1566 ka	0.1220
			1566 kha	0.0640
			1567 ka	0.0100
			1567kha	0.0100
			1610kha	0.0620
			1610kha	0.1300
			1610	0.0920
			1610min	0.1300
			1610min	0.1300
			1610	0.1300
			1611min	0.0650
			1611min	0.0200
			1611min	0.0650
			1611ka	0.0300
			1611min	0.1200
			1611min	0.0650
			1612	0.0090
			1613	0.5154
			1613ka	0.1020
			1671	0.0102
			1697	0.0180
			1699	0.2880
			1699	0.0960
			1700	0.7330
			1701 / 1	0.1130
			2089	0.3150
			2090kha	0.0975
			2090min	0.1650
			2090ka	0.0975
			2090ga	0.1900
			2090gha	0.0800



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2088	0.0600
			1568	0.0100
			1672min	0.0820
			1672min	0.0852
			1672ka	0.4810
			1674kha	0.0500
			1674min	0.1450
			1674	0.1450
			1674ka	0.1840
			1680ka	0.1980
			1680kha	0.1540
			1680	0.1980
			1680gha	0.0676
			1698ka	0.0800
			1698min	0.1060
			1698	0.1612
			1698min	0.1060
			1698min	0.2100
2.	Akbarpur	Aliyapur	226kha	0.0100
			249	0.0150
			249	0.0460
			226	0.0310

[F. No. 2010/LML/12/3-Eastern Corridor]

O. P. SINGH, Executive Director (Land and Amenities-1)